



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2—फरवरी 8, 2013 (माघ 13, 1934)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2013 (MAGHA 13, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 9 जनवरी 2013

बैंपवि.सं.आईबीडी.9808/23.13.155/2012-13--
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है :

“सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन”

बी. महापात्रा
कार्यपालक निदेशक

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. जा.मि.इ./आर.ओ./एल. एंड ऑर्ड./2012--सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत

के राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से जा.मि.इ. अधिनियम, 1988 के संविधि 15 (X-क) के निम्नलिखित खण्ड-ख में विभिन्न केन्द्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अकादमिक परिषद् में शामिल करने के प्रावधान निमित्त अपनी सहमति प्रदान की है जिसकी सूचना उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एफ 6-12/2012-डेस्क (यू), दिनांक 23 नवम्बर, 2012 द्वारा दी है।

“(X-ख) जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम के संविधि 22-क के अंतर्गत निर्मित केन्द्रों के दो शिक्षक, जिनको उन केन्द्रों के शिक्षकों द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया हो। बशर्ते कि कोई भी शिक्षक विश्वविद्यालय में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान परिषद् में शामिल किए जाने हेतु दो बार से अधिक नहीं चुना जा सकता।”

एस. एम. साजिद
कुल सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 9th January 2013

DBOD.IBD.NO.9808/23.13.155/2012-13—In pursuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :—

"Sumitomo Mitsui Banking Corporation"

B. MAHAPATRA
Executive Dir.

JAMIA MILLIA ISLAMIA UNIVERSITY

New Delhi, the 26th December 2012

No. JMI/R.O./L&Ord./2012—This is to notify for the information of all concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord his assent for addition of the following Clause-b to Statute 15(x-a) of JMI Act, 1988 for making provision of elected representation of various Centres in the Academic Council, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education vide their letter No. F.6-12/2012-Desk-U dated November 23, 2012.

"(x-b) Two teachers from the Centres created under Statute 22-A of the Jamia Millia Islamia Act, elected by teachers of such Centres for a period of three years. Provided further that no teacher shall be eligible for election to the Council for more than two terms during his/her entire tenure of service of the University."

S. M. SAJID
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013